

## प्रेस नोट

दिनांक 17.07.2021

### थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत संजयपाल हत्याकाण्ड का सफल अनावरण, हत्यारोपी भाई लख्मीचंद, भतीजा सौरभपाल व भाभी आशा गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 14.07.2021 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुडवल बनारस में ज्वार के खेत में एक व्यक्ति का शव जली अवस्था में मिला था, जिसकी पहचान ग्राम कुडवल बनारस निवासी संजयपाल पुत्र बुद्धीपाल के रूप में हुई थी। घटना के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0- 1482/2021 धारा 302/201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर श्री संग्राम सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात श्रीमती अरुणा राय को अज्ञात अभियुक्त का पता लगाकर उसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात द्वारा गहनता से की गई विवेचना/कार्यवाही में मृतक संजयपाल के भाई लख्मीचंद, भतीजा सौरभपाल व भाभी आशा का नाम प्रकाश में आये। आज दिनांक 17.07.2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात द्वारा भूड़ चौराहे से समय करीब प्रातः 08.05 बजे तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अभियुक्तों की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा को गांव के बाहर बुर्जी बिटौरा की आड़ में छिपाकर रखी गयी को बरामद किया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- लख्मीचंद पुत्र बुद्धीपाल निवासी ग्राम कुडवल बनारस थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
- 2- सौरभपाल पुत्र लख्मीचंद निवासी उपरोक्त।
- 3- आशा पत्नी लख्मीचंद निवासी उपरोक्त।

#### बरामदगी का विवरण-

- 1- 01 ई-रिक्सा नं0- UP13AT-5783

**हत्या का कारण:-** मृतक संजयपाल व लख्मीचंद दोनो सगे भाई है। मृतक अविवाहित था जो दिमाग से कमजोर था जिसके हिस्से में 02 बीघा जमीन थी जिसकी कीमत करीब 70 लाख है। दिनांक 11/12.07.2021 को अभियुक्त लख्मीचंद द्वारा अपने लड़के सौरभपाल व पत्नी आशा के साथ मिलकर संजयपाल की 70 लाख की जमीन हड़पने के उद्देश्य से प्लास्टिक के बोरे से मुँह दबाकर उसकी हत्या कर शव को ई-रिक्शा में डालकर गांव के बाहर ज्वार के खेत में पहचान छिपाने के उद्देश्य से पेट्रोल डालकर जला दिया था।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

- 1- श्रीमती अरुणा राय प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात
- 2- है0का0 भगवती पाठक, का0 आदेश शर्मा, म0का0 प्रीति सिंह, का0 चालक ललित कुमार शर्मा